Date: 27th May, 2022

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001
(Scrip Code: 539946)

ISIN: INE217E01014

Subject: Newspaper Clippings of the Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2022

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Audited Financial Results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter and financial year ended on 31st March, 2022 published by the Company in the newspapers named as "Financial Express" (English Language) and "Jansatta" (Hindi Language) dated 27th May 2022.

This is for your information and records.

Thanking you,

For BAZEL INTERNATIONAL LTD.

Preeti Puri

Į,

(Company Secretary & Compliance Officer)

Office Address: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi- 110024

> Regd. Office: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 Phone No.: 011-46081516, E-mail: bazelinternational@gmail.com

> > Scanned with CamScanne

Website: www.bazelinternationalltd.com

GST No.: 07AACCB1474G1ZX

(र ताकों ने)



## न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074 पंजीकृत कार्यालयः ए-६, सतसंग विहार मार्ग, कृत्ब इन्सटीटयुशनल एरिया नई दिल्ली—110067, भारत ई—मेलः investors@newgensoft.com वेबसाइटः https://newgensoft.com

फोन: (+91)-11-40770100, (+91)-11-66476647 फेक्स: (+91)-11-2685 6936

वीडियो कान्फें स अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

- 1) सदस्य कृपया नोट कर लें कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक, कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 02/2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए जाने वाले बिजनेस के संचालन के लिए, वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए 23 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी।
- 2) उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम का नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी जाएंगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर लें कि नोटिस और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- ई-मेल पतों के पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीकाः
  - सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर और पता सहित, पंजीकृत / पंजीकृत नहीं कराया है, वे कृपया इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारण करने के मामले में डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट तथा जिन्होंने भौतिक स्वरूप में शेयर धारण किए हैं वे कंपनी के रजिस्द्वार और शेयर द्वांसफर एजेंट (''आरटीए'') अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर प्रचलित) से संपर्क कर लें और अपने विवरण वैधीकृत / अद्यतन करा लें।
  - सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम का नोटिस प्राप्त नहीं किया जा सका है, वे इसे भेजने के लिए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर कंपनी के आरटीए के पास अस्थाई रूप से अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दें। सदस्यों से आगे यह अनुरोध किया जाता है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की साफ़ट प्रति और ई-वोटिंग अनुदेशों को भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए यथा निर्देशित प्रकिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।
  - वैकल्पिक तौर पर, सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम का नोटिस और ई—वोटिंग अनुदेश भेजने के लिए ई-मेल पता, मोबाइल नंबर प्रदान करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, स्वयं सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com अथवा investors@newgensoft.com पर डे—मेल भेज सकते हैं।
- ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीकाः कंपनी एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सविधा (रिमोट ई-वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने की सुविधा (ई-वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रकिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।
- 5) **अंतिम लाभांश**ः सदस्य नोट कर लें कि निदेशक मंडल ने रू 4.50 / प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात, पदत्त इक्विटी कैपिटल पर 45%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए बृहस्पतिवार, 16 जून 2022 रिकार्ड तिथि के तौर पर निर्धारित की है। बैंक खाते के पंजीकरण नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किसी सदस्यों को लाभांश का भूगतान करने में कंपनी के असमर्थ रहने पर कंपनी ऐसे सदस्यों को बाद में उनके पंजीकृत पतों पर लाभांश वारंटस / चैकों का प्रेषण करेगी।
- 6) अंतिम लामांश इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्त करने का अधिदेश पंजीकृत करने का तरीकाः अंतिम लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, डीमैट पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना केवाईसी अद्यतन कर दें। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले और लाभांश के भगतान के लिए बैंक विवरण रजिस्टर करने अथवा अपने संबंधित फोलियों के तहत पहले से रजिस्टर्ड बैंक विवरण बदलने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर लिखें।
- 7) यह नोटिस कार्पोरेट मामले मंत्रारलय और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की सचना और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

दिनांकः 26 मई, 2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता / -अमन मौर्या कंपनी सचिव

## सुब्रोस लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: एलजीएफ, वर्ल्ड टेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110 001 सीआईएन: L74899DL1985PLC020134 टेली. नं.: 011-23414946-49; फैक्स नं.: 011-23414945 ई-मेल: rakesh.arora@subros.com; येबसाईट: www.subros.com

> निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) उचन्त खाते में कम्पनी के इक्रिटी शेयरों का अंतरण

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेषक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में इक्किटी शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात या अधिक वर्षों से शेयरधारकों द्वारा लाभांश का भूगतान नहीं लिया गया है या दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अंतरित किया जाना है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों का व्यक्तिगत रूप से सचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष के दौरान नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने हैं।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों एवं आईईपीएफ उचन्त खाते को अंतरण के लिए देय शेयरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट www.subros.com पर अपलोड किया है और शेयरधारको से अनुरोध है कि वे वेब-लिंक https://www.subros.com/investors पर अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरण के लिए पात्र शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण/उचन्त खाते को अंतरित किये गये अदावाकृत लाभांश एवं शेयर, ऐसे शेयरों पर उपार्जित लाभ, यदि कोई हो, के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास वापिस पाने का दावा किया

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 25 अगस्त, 2022 तक या उससे पूर्व कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी कथित नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करते हुए नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ उचन्त खाते में ऐसे शेयरों को अंतरित कर देगी।

इस विषय पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-1, नई दिल्ली-110020, ई-मेल: admin@mcsregistrars.com; वेबसाइट: www.mcsregistrars.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कते सबोस लिमिटेड

राकेश अरोडा तिथि: 26.05.2022 कंपनी सचिव

## PML MERCANTILE LIMITED

Flat No. C-5A, Ansal Villas Satbari, Chattarpur, New Delhi 110030 CIN: U51909DL2004PLC129494 Email ID- zahaanqureshica@gmail.com

The Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of PML Mercantile Limited will be held on Monday the 20th Day of June, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") to transact the following business, as set out in the Notice: of EGM only through E-voting facility.

PUBLIC NOTICE

The Members of the company including their legal representative of a deceased member and assignee of an insolvent member, statutory auditor(s) and All director(s) of the company are requested to Join the Extra ordinary General Meeting of the company through video conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 33/2020 dated 28th September 2020 and General Circular No-02/2021 dated 13th January 2021 (collectively "MCA Circulars"), permitted companies to conduct Extra-ordinary General Meeting (EGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means, subject to compliance of various conditions mentioned therein. In compliance with the MCA Circulars and applicable provisions of Companies Act, 2013, the EGM of the Company is being convened and conducted through VC and accordingly, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 and General Circular No-02/2021 dated 13th January 2021 the Company is providing facility of remote E-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EGM.

The Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM) along explanatory statement and other enclosures is being sent only through electronic mode to those members whose Email addresses are registered with Company or NSDL (Depository).

Members who have not registered their email addresses and in consequence the Notice of EGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email. address and mobile number registered with the Company members may send an email request at the email id zahaanqureshica@gmail.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, selfattested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Notice of EGM and the e-voting instructions.

Date: 08/04/2022 Place: New Delhi

स्थान : नई दिल्ली

By the order of Board For PML Mercantile Limited

Zahaan Qureshi Director DIN: 07462255

रथानः नोएडा

दिनाक: 26.05.2022

# फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड

CIN: L15133UR1990PLC023970

रजिस्टर्ड ऑफिस: लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम माजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तराखंड) फोन : 91-135-2499234 फैक्सः +91-135-2499235 वेबसाईट : www.flexfoodsltd.com ईमेल: secretarial@uflexltd.com

31.03.2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्र० सं०	विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.12.2021 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1,	कुल आय	2877	2589	2927	11221	10545
2.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)	236	233	490	1240	1541
3.	अवधि के लिए कर पश्चात् शुद्ध लाभ / (हानि)	194	149	370	912	1199
4.	अवधि के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय (लाभ / (हानि) सम्मलित) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात )	200	149	390	918	1219
5.	समतुल्य अंश पूंजी (अंकित मूल्य र 10/- प्रत्येक)	1245	1245	1245	1245	1245
6.	अन्य समतुल्य, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	10142	9348	9348	10142	9348
7.	आय प्रति शेयर ११०/- (रू० में) (अवार्षिकृत) मूल तरल	1.55 1.55	1.20	2.97 2.97	7.32 7.32	9.63 9.63

नोट:-- 1. उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 33, संशोधित परिपत्र संख्या सीआईआर / सीएफडी / एफएसी / 62 / 2016, दिनांक 5 जुलाई 2016 के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत अंश है। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.flexfoodltd.com) पर उपलब्ध है । कृते फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड

(अशोक चतुर्वेदी)

चेयरमैन DIN - 00023452

### बिक्री सूचना

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड - (परिसमापन में) पंजी कार्यालय : ट्राइकोन टॉवर, प्लॉट नं, 4बी, द्वितीय तल, मयुर विहार जिला सैन्टर, मयुर विहार एक्सटेशन, दिल्ली-110091

परिसमापक का पता: 302-ए, पाल मोहन प्लाजा, देश बंधु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली -110005 ईमेलः arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com, संपर्क नं. +91- 97189 31858, 011-47724484/ 85 दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कॉर्पोरेट देनदार की ई-नीलामी बिक्री चलते हुए व्यापार की तरह

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन–में की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री परिसमापक द्वारा, जो माननीय राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांकित 31 मई, 2021 द्वारा नियुक्त किया गया है। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई—नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से निष्पादित की जाएगी

नीलामी की तिथि और समयः मंगलवार, 28 जून, 2022 अपी. 03.00 बजे से अपी. 4.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

क्र.सं.	आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि
1.	कापॉरेट देनदार की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री, कापॉरेट देनदार की ग्राहकों की प्रतिभूति जमाओं के प्रति देयताओं सहित विशिष्ट बहिष्करण:			
	क. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (हाथ रोकड़, बैंक में रोकड़ तथा अन्य साविध जमाएं)।			
	ख. कोई आस्ति अथवा दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के चैप्टर-।।। के अनुसार सौदों से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसूल किया गया उसका मूल्य		₹ 5,00,000/-	₹ 1,00,00,000/-
	ग. कतिपय लम्बित मुकदमें, जिनका विवरण डेटा रूम में उपलब्ध करवाया जाएगा।			
	घ. अनाहूत पूंजी तथा / अथवा अदत्त पूंजी अंशदान (उनपर शेयर प्रीमियम सिंहत) के प्रति कार्पोरेट देनदार के किसी अंशदायी से वसूल की गई कोई देयबकाया राशि			

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं

- ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" के आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जाएगी
- कॉर्पोरेट देनदार, उसकी संपत्ति और देनदारियों का निरीक्षण हेतु दिनांक 27 मई 2022 से 24 जून 2022 तक, केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून, 2022, को अर्पा. 05.00 बजे तक है।
- माननीय एनसीएलटी से अनुमोदन के बाद अंतिम बिक्री की पृष्टि की जाएगी ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज जिसमें रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में, चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री आस्तियों का विवरण ऑनलाइन ई—नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई—नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्ते दी गई हैं, वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क : श्री प्रवीन थेवर, मो. +91-97227 78828, 079-68136841

ईमेल: praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net

अरविन्द गर्ग, रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापन में IBBI पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189

पता: 302ए पाल मोहन प्लाजा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ईमेल : arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com फोन: +91-97189 31858

# श्री अमरनाथ फाइनेंस लिमिटेड

CIN No. L74899DL1985PLC020194 पंजीकृत कार्यालय: 4883-4884, द्वसरी मंजिल, मेन रोड, कूचा उस्ताद डाग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 फोन नंबर: 011-23953204, ईमेल: amarnath01finance@gmail.com

	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष	के लिए अंकेदि	त वित्तीय परिष	गामों का विवरए	П			
	(रु. लाख में) ईपीएस को छोड़क							
क्रम		समाप्त तिमाही 31.03.2022	समाप्त तिमाही	समाप्त वित्तीय वर्ष	समाप्त वित्तीय वर्ष			
सं.	विवरण		31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021			
1 2 3 4 5		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	121.40	117.45	453.20	495.86			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और/या असामान्य मदों से पूर्व)	87.83	68.30	311.93	369.55			
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	87.83	68.30	311.93	369.55			
4	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद	58.31	41.31	230.81	269.49			
5	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	58.31	41.31	230.81	269.49			
6	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	58.31	41.31	230.81	269.49			
7	इक्विटी शेयर पूंजी	998.00	998.00	998.00	998.00			
8	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है	1848	8.3	5,764.75	5,533.94			
9	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य) (निरंतर और अनिरंतर संचालन के लिए)							

नोट्स:-उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 26 मई 2022 को आयोजित बैठक में अनमोदित किया गया है।

0.58

0.58

0.41

0.41

उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.sriamarnathfinance.in पर उपलब्ध है।

> श्री अमरनाथ फाइनेंस लिमिटेड के लिए राकेश कपूर प्रबंध संचालक

बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: II-बी/20, प्रथम मंजिल, लाजपत नगर नई दिल्ली- 110024

CIN: L65923DL1982PLC290287

ई–मेल: bazelinternational@gmail.com, दूरभाष: 011-46081516; वेबसाइट: www.bazelinternationalltd.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के स्टैन्डअलोन उद्धरित अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

31.03.2022

(अंकेक्षित)

26.49

9.38

9.38

4.51

21.52

दिनांक: 26.05.2022 स्थान : दिल्ली

संचालन से कुल आय

अथवा असाधारण मदों से पूर्व)

एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)

एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)

सं०.

बेसिक (वार्षिक नहीं)\*

डाल्पुटेड (वार्षिक नहीं)+

DIN: 00216016

समाप्त तिमाही

31.03.2021

(अंकेक्षित)

18.43

(75.08)

(75.08)

(64.99)

(67.13)

(4.47)

31.12.2021

(अन-अंकेक्षित)

28.90

9.36

9.36

6.93

6.93

0.48

2.31

2.31

2.70

2.70

Place: New Delhi

Date: 26th May, 2022

31.03.2021

(अंकेक्षित)

84.44

(31.89)

(31.89)

(33.82)

(33.96)

(2.32)

AMS POLYMERS LIMITED Regd. Off.: C-582, SARASWATI VIHAR, PITAMPURA DELHI-110034 Phone: 011-27017987; Fax: 011-27017987, Website: www.amspolymers.com, CIN: L34300DL1985PLC020510 Email: polymersams@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022					
Particulars	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	
Total income from operations	1,677,10	891.09	5259.26	3151.37	
Net Profit / (Loss)for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.31	(6.77)	13.75	8.97	
Net Profit / (Loss)for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.31	(6.77)	13.75	8.97	
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.05	(6.77)	8.85	6.64	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.05	(6.77)	8.85	6.64	
Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25	330.25	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	(8.13)	
Earnings Per Share (of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)		43)	00	20	
Basic :	0.01	-0.02	0.03	0.02	
Diluted:	0.01	-0.02	0.03	0.02	

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Financial year ended March 31,2022 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEB Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid inancial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.amspolymers.com The above results are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015.

> For and on behalf of the Board of Directors of AMS POLYMERS LIMITED **Anand Kumar** Managing Director

(2) GOODLUCK

दिनांकः 27.05.2022

स्थान : नई दिल्ली

गुडलक इंडिया लि.

CIN: L74899DL1986PLC050910 | पंजी. कार्या.: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः www.goodluckindia.com | ई-मेलः goodluck@goodluckindia.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिये स्टैंडएलॉन एवं समेकित

अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाखों में समेकित समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2022 31/03/202 31/03/2022 31/03/202 31/03/2022 2,61,321.26 48,082.90 1,57,211.52 1. परिचालनों से कुल आय 70,079.22 70,079.22 1,57,211.5 48,082.90 2,61,321.26 2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा 3,208.91 1,028.08 1,0057.37 4,018.87 3,209.42 1,028.58 10,058.25 4,019.61 असाधारण मदों से पर्व) 3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट 10,058.25 4,019.61 3,208.9 10,057.37 4,018.87 3,209.42 1,028.58 1,028.08 एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) 3,004.71 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं 2,429.73 818.05 7,501.96 3,005.45 2,429.22 817.55 7,501.08 अथवा असाधरण मदों के बाद) 2,429.22 3,004.71 अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) 818.05 7,501.08 2,429.73 7,501.96 3,005.45 817.55 लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से 6. इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 2/- प्रति) 520.13 520.13 520.13 520.13 490.13 490.13 7. आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई 37,854.54 एनए एनए 46,072.67 37,854.55 46,071,79 एनए पनर्मल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित 8. आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) 9.40 3.50 29.48 3.50 29.48 9.40 13.01 तरलः 9.40 3.50 29.48 13.01 29.48

1. उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 26.05.2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। 2. कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिये अंतिम लाभांश के रूप में रु. 2,00/– (100%) प्रति शेयर की सिफारिश की है।

3. उपरोक्त सेबी ( सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.goodluckindia.com) प

गुडलक इंडिया लिमिटेड के लिये हस्ता./- एम सी गर्ग

DIN:00292437

स्थानः गाजियाबाद तिथि: 26 मर्ड. 2022

(-)6.62

(-)6.62

(-)5.77

(-)5.77

**NIMBUS** फोन : 011-42878900, ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com, वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com CIN : L74899DL1993PLC055470

DIN: 01381489

31.03.2022 (अंकेक्षित) 115.480 43.32 43.32 29.63 46.64

(रू० लाखों में)

2.04

समाप्त वार्षिक

(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- के प्रत्येक) 145.50 145.50 145.50 145.50 145.50 रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि वित्तीय वर्ष 1,273.04 1,319.70 2021-22 के अंकेक्षित तलन पत्र में दर्शाया गया प्रति शेयर आय (रू० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए): 0.48 (4.47)2.04

0.31

टिप्पणी:

तरलः

कम्पनी केवल एक व्यावसायिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके सम्बन्धित 26 मई, 2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।

जिसके लिए कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित रिपोर्ट प्रदान की गई। पिछली अवधि के आकड़े वर्तमान अवधि के आकड़े की पृष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पूर्नगढित/पूनः वर्गीकृत किए गये हैं।

4. कम्पनी पर इण्डियन एकाऊटिंग स्टेन्डर्ड 1 अप्रैल, 2019 से लागू है।

विबरण

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट

कर के बाद अवधि के लिए शद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/

मंडल की ओर स कृते बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड हस्ता०/-पंकज डाबर (प्रबन्ध निर्देशक)

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही व वर्ष स्टैंडअंलोन एवं कन्सोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार 🔣 🤻 लाख में कन्सोलिडेटेड विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2021 (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय 60.96 386.21 461.58 25.50 386.21 461.59 25.49 60.96 अवधि का शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर पूर्व (-)687.21(-)424.94905.81 (-)2153.34(-)93.71(-)430.921460.60 (-)2205.07तथा असाधारण मदों के उपरान्त) अवधि का कर के बाद शुद्ध लाभ/ (हानि) (-)678.81(-)428.86868.12 (-)2168.12(-)85.32(-)434.841422.91 (-)2219.85( असाधारण मदों के उपरान्त) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के (-)678.43(-)428.29868.76 (-)2167.41(-)83.87(-)434.911424.70 (-)2219.14लिए लाम/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) समता अंश पुंजी 1083.80 743.80 1083.80 743.80 1083.80 743.80 1083.80 743.80 कोष (पूर्नमूल्याकंन कोष हटाकर) (-)4862.26(-)5731.01(-)4862.20(-)6286.89(As on (As on (As on (As on

टिप्पणी:

डाइल्यूटिड

आय प्रति अंश (अंकित मृल्य ₹ 10/- प्रत्येक)

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कंपनी के वेबसाइट : www.nimbusprojectsltd.com पर उपलब्ध है। बोर्ड की ओर से

31.03.2022)

8.46

8.46

31.03.2021)

(-)29.15

(-)29.15

(1.15)

(1.15)

(-)5.85

(-)5.85

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर

31.03.2022)

13.87

13.87

31.03.2021)

(-)29.84

(-)29.84

बिपिन अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक) डीआईएनः 00001276

तिथि : 26 मई, 2022 DIN:06479649 स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

तिथि: 26 मई, 2022 स्थान: नई दिल्ली

**FINANCIAL EXPRESS** 

### POSSESSION NOTICE REGINOL OFFICE: KUSUMKHERÅ, HALDWANI, DISTT. NAINITAL, UTTARAKHAND (For Movable/Immovable Properties)

ereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitization And Reconstruction of Financial Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses and costs within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said rule as per the details given below. The borrower in particular and the public in general are bereby cautioned not to deal with

ı	the property and any dealings with the property will be sul	of the said rule as per the details given below. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal v roperty and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount along with interest mentioned be orrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.							
	Name of Branch Name & Address of Borrower/Guarantor/Mortgagor	• •	Outstanding Amt. as	-					
	CICHHAII: Shri Dinesh Chandra (Borrower), S/o Anokhe Lal, Ward no. 13, Railway Colony, Kichha, Dist. U.S.Nagar, Pin-263148; Smt. Madhuri Devi (Mortgagor & Co-Borrower) W/o Shri Dinesh Chandra, Ward no. 13, Railway Colony, Kichha, Dist. U.S.Nagar, Pin-263148 Shri Kuldeep Pathak (Co-Borrower) S/o Shri Dinesh Chandra, Ward no. 13, Railway Colony, Kichha, Dist. U.S.Nagar, Pin-263148 Shri Harish Kumar Saxena (Guarantor) S/o Shri Munna Lal, Ward No. 2, Pant Colony, Kichha, Dist. U.S.Nagar, Pin-263148	Date of Possession 24/05/2022	Sixty Nine Thousands Four Hundred Thirty	Land & Building situated at Chak No. 32, Khasra No. 349/13 Min situated at Village bandia, Pargana- Rudrapur, Tehsil Kichha, Dist U S Nagar having an extent up to 194.05 square meter.  Boundaries: East: Plot of Munni Devi West: Plot of vendor North: Rasta South: Land of Others					
	ALMORA I:  1. M/s Krishna Tent & Caters (Proprietorship Firm) Prop. Ramesh Singh Nagarkoti Krishna Sweets, Dharanaula, Almora 263601  2. Shri Ramesh Singh Nagarkoti (Borrower/Mortgagor) S/o Kishan Singh Nagarkoti, Krishna Sweets, Dharanaula, Almora-263601  3. Shri Ganesh Gururani (Guarantor) S/o Shri Mohan Chandra Gururani, Badreshwa ward, Champanaul, PO Almora— 263601	05/03/2022  Date of Possession 24/05/2022	Rs. 22,42,070/- (Rupees Twenty Two lakh Forty Two Thousands Seventy Only), plus further interest & other expenses.	Open Land in the name of Shri Ramesh Singh Nagarkoti S/o Shri Kishan Singh Nagarkoti situated at Mauja Sarkar Ki Ali, Patti Khasparja, Patwari area Khatyari, Pargana Baramandal, Tehsil & Dist Almora bearing Khatauni Khata No. 00001, Basrah No. 88, Plot No. 367,369,370 measuring 12.50 mutthi or 156.25 square meter.  Boundaries: East: Property of Jeewan Lal Tamta West: Property of Bhagwat Singh North: Property of Harish Chandra South: Rasta					
	DURGAPURI:  1. M/s Soumya Sumati Travelars  Prop. Lipi Roy, Kalinagar,  Vijaynagar Dineshpur,  U S Nagar, Pin 263160  2. Smt. Lipi Roy (Proprietor/Mortgagor)  W/o Shri Nishikant Roy  Kalinagar, Vijaynagar  PO Kalinagar, Buksaura,  U S Nagar Pin-263160	08/03/2022  Date of Possession 21/05/2022	Rs. 5,73,891.16/- (Rupees Five Lakh Seventy Three Thousands Eight Hundred Ninety One & Sixteen Paisa Only), plus further interest & other expenses.	Open land in the name of Smt. Lipi Roy w/o Shri Nishikant Roy situated at Vijaynagar, Tehsil Rudrapur, Dist U S Nagar bearing Khata No. 00243 (Old Khata No. 27), Khasra No. 508 Min measuring 66.91 square meter.  Boundaries: North: Rasta East: Land of vendor West: Land of vendor South: Land of vendor					
	Date: 27-05-2022	Place	: Haldwani	Authorised Officer					

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

LA RESIDENTIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

30/09/2010

25/05/2022

08/06/2022

LA RESIDENTIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

220, 2nd Floor, Vardhman Sunrise Plaza Plot No.1

20/11/2022 (180 days beginning Insolvency

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001 Email: insolvencyprofessional@rediffmail.com

F-327/1, First Floor, Lado Sarai, Old MB Road,

This email to be used for claim submission

Real Estate Allottees / Home buyers

3, SaritaVihar, New Delhi 110076.

Email: ar.laresidentia@gmail.com

Email: devumraoibc@gmail.com

La Residentia Developers Private Limited (Under CIRP)

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

2. Mr. Satish Kumar Chugh

J. Mr. Devendra Umrao

at Point 13 above

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Court -II has ordered the

commencement of a corporate insolvency resolution process of M/s La Residentia Developers Private

The creditors of La Residentia Developers Private Limited are hereby called upon to submit their claims

with proof on or before 08/06/2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act

as authorised representative of the class i.e. [Real Estate Allottees / Home Buyers] in Form CA.

(This email is not to be used for sending claims)

New Delhi-110030. Email: cirp.laresidentia@gmail.com

Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-19/12081

Add.: 1900, Madanpur Khaddat, JJ Colony, Phase

Regn No: IBBI/IPA-003/IP-N00270/2020-2021/13196

Rean No: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640

Add.: B-43A, First Floor, Kalkaji, New Delhi -110019.

(b) Detail of authorized representatives is available

NAVEEN KUMAR JAIN

(a) Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads

Add.: 111-B, Pocket F, Mayur Vihar, Phase-III

Delhi-110091 Email: skchugh111@gmail.com

L.S.C., Vasundhra Enclave, Delhi-110096 IN

Registrar of Companies - Delhi

U70200DL2010PTC208933

(as per the MCA website).

Commencement date)

NAVEEN KUMAR JAIN

Name of Corporate Debtor

is incorporated / registered

Date of incorporation of Corporate Debtor

Authority under which Corporate Debtor

Corporate Identity No. / Limited Liability

principal office (if any) of Corporate Debtor

Estimated date of closure of insolvency

Name and Registration number of the

insolvency professional acting as Interim

Address & email of the interim resolution

professional, as registered with the board

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

in a class (three names for each class)

(b) Details of authorized representatives

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Classes of creditors, if any, under clause (b)

of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional

to act as authorised representative of creditors

Names of insolvency professionals identified 1. Mr. Arvind Mittal

Identification No. of Corporate Debtor

Address of the registered office and

Insolvency commencement date in

respect of Corporate Debtor

resolution process

Resolution Professional

Resolution Professional

14. (a) Relevant Forms and

are available at:

Date: 26.05.2022

Place: New Delhi

AJANTA SOYA LIMITED CIN L15494RJ1992PLC016617 Regd. Office & Works: SP-916, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301 019, Rajasthan Tel.: 911-6176727, 911-6128880; Corp. Office: 12<sup>th</sup> Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110 034

Tel: 011-42515151, Fax: 011-42515100, Email: cs@ajantasoya.com Website: www.ajantasoya.com NOTICE OF RECORD DATE Notice is hereby given that the Board of

Directors of the Company at its meeting held today i.e. 26th May, 2022 has fixed Friday, 17th June, 2022 as the Record Date for determining the eligibility of shareholders, with regard to the Sub-division (split) of 1 (one) Equity shares of Rs. 10 each (fully paid-up) into 5 (five) Equity shares of Rs. 2 each (fully paid-up), as approved by the shareholders through postal ballot by way of electronic means on 23rd May, 2022.

The details relating to the abovementioned Sub-division of equity shares are also available in the "investor Relations" section of the Company's website i.e. www.ajantasoya.com. By order of the Board Ajanta Soya Limited

Abhey Goyal Place: New Delhi Whole Time Director Date: 26.05.2022 DIN: 02321262

## केंग्रा बैंक Canara Bank, सिडिकेट Syndicate

**Demand Notice** Regional Office 1: 71, Nehru Nagar, M. G. Road, Agra

Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act 2002.

Whereas at the request of you (below mentioned borrowers), Canara Bank has granted Credit Facility against schedule property creating security interest in favour of the Bank. The particulars of property mortgaged by you by way of deposit of title deeds creating security interest in favour of the Bank are mentioned hereunder. As you have failed to discharge the debut due to the Bank, the below mentioned loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notice sent to you by Registered Post calling upon you to discharge the debt due to Bank were returned, unserved, we are issuing this notice through publication.

Name & Add. of Description of Property		Amount of Demand Notice	
Branch- Awas Vikas Colony, Agra			
E-01 situated at Shastripuram, Lohamandi Ward, Teh. & Distt Agra, Area- 44.36 Sq. Mtr., Property in the name of	.202	24,04,070.48 as on Dt. 20.05.2022 + interest & expenses	
	Eranch- Awas Vikas Colony, Agra EMT of Property, LIG Plot No 199 in Sector E, Sub Sector E-01 situated at Shastripuram, Lohamandi Ward, Teh. & Distt Agra, Area- 44.36 Sq. Mtr., Property in the name of Sri Jagdish S/o Sri Panni Ram and Sri Sanjay S/o Sri Jagdish, Bounded as: East- Road, West- ESS Existing,	Eranch- Awas Vikas Colony, Agra  EMT of Property, LIG Plot No 199 in Sector E, Sub Sector E-01 situated at Shastripuram, Lohamandi Ward, Teh. & Distt Agra, Area- 44.36 Sq. Mtr., Property in the name of Sri Jagdish S/o Sri Panni Ram and Sri Sanjay S/o Sri Jagdish, Bounded as: East- Road, West- ESS Existing,	

within 60 days from the date of Publication of this notice, the bank will exercise all orany of the rights detailed under Sub-section (4) of section 13 of SARFAESI Act and other applicable provisions of the said Act. This notice is without prejudice of the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other provisions of law. Dated: 27-05-2022 Place: Agra **Authorised Officer** 

### GOODLUCK INDIA LIMITED (2) GOODLUCK CIN: L74899DL1986PLC050910 | Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001 | E-mail: goodluck@goodluckindia.com | Website: www.goodluckindia.com Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial results

for the quarter/year ended on 31st March, 2022 (Rs. in Lakhs) Consolidated Standalone **Quarter Ended** Year Ended **Quarter Ended** Year Ended **Particulars** 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021 2,61,321.26 1,57,211.52 70,079.22 2,61,321.26 1,57,211.52 Total income from operations 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 10,058.25 3,208.9 3,209.42 1,028.58 4,019.6 1,028.08 1,0057.37 4,018.87 Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period 3,209.42 1.028.58 10.058.25 4.019.6 3.208.9 1.028.08 10.057.37 4,018.87 before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 2,429.73 818.05 7,501.96 3,005.45 2,429.22 817.55 7,501.08 3,004.7 Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 7,501.96 3,005.45 2,429.22 817.55 7,501.08 3,004.7 2,429.73 818.05 [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 520.13 490.13 520.13 490.1 520.13 490.13 520.13 490.13 6 | Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each) Reserves (excluding Revaluation Reserve as 46,072.67 37,854.55 37,854.54 shown in the Balance Sheet of previous year). Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations) 9.40 3.50 29.48 13.0 9.40 3.50 29.48 13.0° 9.40 3.50 29.48 13.0 9.40 3.50 29.48 13.0

Note:
1. The above Audited Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 26.05.2021.
2. The Board of directors of the Company has recommended Rs. 2.00/- (100%) Per Share as the final dividend for the financial year 2021-22.

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial results filed with the stock exchange as under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's website (www.goodluckindia.com). For Goodluck India Limited

Place: Ghaziabad Date: May 26, 2022 DIN:00292437

## **BAZEL INTERNATIONAL LTD.**

Registered Office: II-B/20, First Floor, Laipat Nagar, New Delhi 110024 CIN: L65923DL1982PLC290287

E-mail ld: bazelinternational@gmail.com; Contact no: 011-46081516; Website: www.bazelinternationalltd.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022 (Rs. In Lakhs) Quarter ended Year ended **Particulars** No. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2022 (Audited) (Un-audited) (Audited) (Audited) (Audited) 26.49 28.90 18.43 84.44 115.480 Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 9.38 9.36 43.32 (75.08)(31.89)and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptiona 9.38 9.36 (75.08)(31.89)43.32 and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional 4.51 6.93 (64.99) (33.82)29.63 and/or Extraordinary items) 21.52 Total Comprehensive Income for the period Comprising 6.93 (67.13)(33.96)46.64 Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 145.50 145.50 Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each 145.50 145.50 145.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in 1,319.70 1,273.04 the Audited Balance Sheet of the financial year 2021-2022 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 2.04 (a) Basic 0.48 (4.47)(2.32)

(b) Diluted

Diluted:

The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.

The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 26th May, 2022. The Statutory Auditor of the Company have provided Audit Report for the same.

0.48

Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods. IIndian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019.

On Behalf of the Board For BAZEL INTERNATIONAL LTD

(2.32)

2.04

M C Garg

Chairman

Date: 26th May 2022 Place: New Delhi

Place : Chennai

Date: May 26, 2022

## Pankaj Dawar (Managing Director) DIN: 06479649

(4.47)

# (expleo) **Expleo Solutions Limited**

Registered Office: 6A, Sixth Floor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai – 600 096, India • **Phone** : + 91 44 4392 3200 • **Website**: https://expleosolutions.com • **CIN**: L64202TN1998PLC066604

## NOTICE

## TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, that all the Shares in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed / unpaid during last seven consecutive years, are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government.

The details of shareholders who have not claimed their dividends during last seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the DEMAT Account of the IEPF Authority, is displayed on the website of the Company https://expleosolutions.com. The Company has sent individual communication/letter dated May 26, 2022 through registered post to the latest available addresses of those shareholders advising them to claim the dividends expeditiously by writing to our Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Unit: Expleo Solutions Limited, 'Subramanian Building', No.1, Club House Road, Chennai 600 002, Telephone: 044 - 2846 0390 / 044 - 4002 0700, Fax No: 044 - 2846 0129, Email: investor@cameoindia.com, Website: http://www.cameoindia.com.

In case no valid claim has been made on or before August 28, 2022 for the Final Dividend for financial year 2014-15 or in case no valid claim has been made for the dividend declared during last seven financial years (at least for any one year), the shares in respect of Final Dividend for the financial year 2014-15 will be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority without any further notice.

It is to be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF as per the above Rules. In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the above Rules and the same is available at IEPF Website, i.e. www.iepf.gov.in.

New Delhi

For and on behalf of Board of Directors **Expleo Solutions Limited** 

**Company Secretary & Compliance Officer** 

S. Sampath Kumar





larrive at a conclusion not an assumption.

Inform your opinion with detailed analysis.





## NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-42878900, Email: nimbusindialtd@gmail.com, Website: www.nimbusprojectsltd.com CIN: L74899DL1993PLC055470

	STANDALONE				CONSOLIDATED			
PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
Total Income from operations	60.96	25.49	386.21	461.58	60.96	25.50	386.21	461.59
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and after Exceptional Items)	(-)687.21	(-) 424.94	905.81	(-) 2153.34	(-) 93.71	(-)430.92	1460.60	(-) 2205.07
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(-) 678.81	(-) 428.86	868.12	(-) 2168.12	(-) 85.32	(-)434.84	1422.91	(-) 2219.85
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(-) 678.43	(-)428.29	868.76	(-)2167.41	(-) 83.87	(-)434.91	1424.70	(-) 2219.14
Equity Share Capital	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-		(-) 4862.26 (As on 31.03.2022)	(-) 5731.01 (As on 31.03.2021)	2=	-	(-) 4862.20 (As on 31.03.2022)	(-) 6286.89 (As on 31.03.2021)
Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	(-) 6.62 (-) 6.62	(-) 5.77 (-) 5.77	8.46 8.46	(-) 29.15 (-) 29.15	(1.15) (1.15)	(-) 5.85 (-) 5.85	13.87 13.87	(-) 29.84 (-) 29.84

Diluted: Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange. website, www.bseindia.com and on the Company's website, www.nimbusprojectsItd.com

On behalf of the Board For Nimbus Projects Limited

**BIPIN AGARWAL** (Managing Director) DIN: 00001276

financialexp.epa

Date: 26" May, 2022

Place: New Delhi



